

Department

August 10, 2024

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

C-1, Block-G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

NSE Symbol: CSLFINANCE

BSE Limited

Corporate Relationship

Phiroze, Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001

BSE Scrip Code: 530067

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")-Newspaper Publication.

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, we enclose the Newspaper Advertisements published in today's 'Business Standards' - English edition and 'Business Standards' - Hindi edition in connection with the 32nd Annual General Meeting of the Company to be held through video conference.

Kindly take note on record acknowledgement receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

For CSL Finance Limited

Ashok Kumar Digitally signed by Ashok Kumar Kathuria

Date: 2024.08.10 Kathuria 12:09:41 +05'30'

Ashok Kumar Kathuria

(Director)

DIN-01010305

HB STOCKHOLDINGS LIMITED

CIN: L65929HR1985PLC033936

Registered Office: Plot No.31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122 001, Haryana Ph.: +91-124-4675500, Fax: +91-124-4370985

E-mail: corporate@hbstockholdings.com, Website: www.hbstockholdings.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED)
FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2024

S.	(Rs. In Lakt S. Particulars Standalone Consolidated						
No.		Quarter ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended	Quarter ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended
		30/06/2024	30/06/2023	31/03/2024	30/06/2024	30/06/2023	31/03/2024
		Un-Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
1.	Total Income from Operations (net)	1002.46	1037.96	4436.45	1002.46	1037.96	4436.45
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	908.29	976.54	4119.39	907.74	975.99	4117.08
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	908.29	976.54	4119.39	907.74	975.99	4117.08
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	645.06	976.86	3755.82	644.51	976.31	3753.51
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	645.28	1000.47	3785.07	644.73	999.92	3782.76
6.	Equity Share Capital	713.77	713.77	713.77	713.77	713.77	713.77
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	N.A.	N.A.	9657.87	N.A.	N.A.	9543.08
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-						
	Basic: Diluted:	9.04 9.04	13.69 13.69	52.62 52.62	9.03 9.03	13.68 13.68	52.59 52.59

- (i) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange (s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of this Quarterly Financial Results is available on the website of Stock Exchange(s), BSE Limited, www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited, www.nseindia.com and Company's website,
- The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 09th August, 2024 and approved by the Board of Directors at its meeting held on the same date

AZAD ENGINEERING LIMITED

Place : Gurugram

LALIT BHASIN DIN: 00002114



Ramkrishna Forgings Limited

CIN No: L74210WB1981PLC034281 23 Circus Avenue, Kolkata - 700017 Phone: 033-4082 0900/7122 0900, Fax-033-4082 0998 Email - secretarial@ramkrishnaforgings.com Website: www.ramkrishnaforgings.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF 42NO ANNUAL GENERAL MEETING

The Company had issued Notice of the 42rd Annual General Meeting ("AGM") to the Shareholders of the Company, for the AGM to be held on Saturday, 31 day of August, 2024 at 11:45 A.M. (I.S.T.) through Video Conference/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the AGM Notice dated 24 July, 2024 for the approval of the Members.

This Corrigendum is being issued to give notice to note the corrections appearing with respect to Item No. 8 of the Explanatory Statement of the AGM Notice.

Corrigendum to the AGM Notice shall form an integral part of the 42nd AGM Notice which has already been circulated to Shareholders of Company on Wednesday, 7 August, 2024 and on and from the date hereof, the AGM Notice shall always be read in conjunction with this Corrigendum. Corrigendum has been uploaded on website of the Company i.e www.ramkrishnaforgings.com, and the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. www.nseindia.com. All other contents of the AGM Notice, save and except as modified or supplemented by the Corrigendum, shall remain unchanged.

For Ramkrishna Forgings Limited

Rajesh Mundhra Company Secretary ACS 12991



Financial Services Institutions Bureau

An Autonomous Body of Government of India invites applications for the position of

MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

IFCI LTD.

For details of Age, Educational Qualifications, Experience/ Service Requirements, Criteria of Deputation for Government Officers and other eligibility terms and conditions, please see the advertisement on https://fsib.org.in/ under the "Vacancies & Recommendations" tab.

How to apply: Interested candidates can apply online through the link available on https://fsib.org.in/ under the "Vacancies & Recommendations" tab or directly at https://www.research.net/r/mdceoifci2024

Last date of application: 5:00 pm on 06-Sep-2024

Note: Further details including corrigendum, if any, shall be published only on the Bureau's website.



TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

NOTICE

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

The provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"), amongst other matters, contain provisions for transfer of unclaimed dividend to IEPF and transfer of shares, in respect of which dividend remains unclaimed for seven consecutive years or more to IEPF Account. Companies are required to inform the shareholders at the latest available address whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority three months prior to the due date of transfer of shares and simultaneously publish the notice in the newspapers. This Notice is published pursuant to the provisions of the Act and Rules.

Individual communication is being sent to the registered address of the shareholders whose dividends are lying unclaimed for seven consecutive years and whose shares are liable to be transferred to IEPF.

The complete details of these shareholders are being uploaded on the Company's website www.tcs.cc

In case the dividends are not claimed by the concerned Shareholder(s) by November 11, 2024 for Second Interim Dividend 2017-18, necessary steps will be initiated by the Company to transfer shares held by the concerned shareholder(s) to IEPF without further notice in the following manner:

- In physical form New share certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF on completion of $necessary formal ities. \ The \ original \ share \ certificate (s) \ which \ stand \ registered \ in \ the \ name \ of \ shareholder \ will \ shareholder \ shareholder \ will \ shareholder \ share$ be deemed cancelled and non-negotiable
- In demat form The Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in shareholder's demat account in favour of IEPF.

The shareholders may note that in the event of transfer of shares and the unclaimed dividends to IEPF, concerned shareholder(s) are entitled to claim the same from IEPF Authority by sending physical copy of requisite documents to the Company for obtaining the entitlement letter, pursuant to Circular dated July 20, 2022 issued by IEPF Authority, and there after submitting online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in

The shareholders may further note that the details of unclaimed dividends and shares of the concerned shareholder(s) uploaded by the Company on its website <u>www.tcs.com</u> shall be treated as adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and equity shares transferred to the IEPF.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact Link Intime India Private Limited, Unit: Tata Consultancy Services Limited, C-101, Embassy 247, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Email Id: csg-unit@linkintime.co.in, Tel: +91 810 811 8484, Website: https://www.linkintime.co.in/

For Tata Consultancy Services Limited

Pradeep Manohar Gaitonde Company Secretary

Place: Mumbai Date: August 10, 2024

Registered Office: 9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai 400 021

Tel: +91 22 6778 9595

Email: investor.relations@tcs.com Website: www.tcs.com CIN: L22210MH1995PLC084781

Adfactors 246

₹ In Millions except for EPS/DPS

30-Jun-2023

760.57

114.67

74.04

74.41

16.52

1.49

1.49

For & on behalf of the Board of Directors

Company Secretary & Compliance Officer

Azad Engineering Limited

Ful Kumar Gautam

QUARTER ENDED

955.66

226.27

149.29

147.25

118.23

2.85

2.85

30-Jun-2024 31-Mar-2024

Unaudited

990.21

243.56

171.23

172.40

118.23

2.90

YEAR ENDED

31-Mar-2024

3727.64

807.86

585.80

583.26

118.23

11.20

CSL Finance Limited

Place: Hyderabad

Date: 8th August, 2024

CIN: L74899DI 1992PI C051462 Read. Office: 410-412.18/12. 4th Floor, W.E.A Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi -110005

PARTICULARS

Net Profit/(Loss) for the period before tax

Total Comprehensive Income for the period

(Face value of ₹2/- each) (Not Annualised)

(Face value of ₹2/- each) (Not Annualised)

Net Profit/(Loss) for the period after tax

Total Income

Equity Share Capital

Earnings Per Share -Basic

Earnings Per Share -Diluted

Company's website (www.azad.in).



CSL Finance

Tel: 0120-4290650, Email: investor@cslfinance.in, Website: www.cslfinance.in Notice is hereby given that the Thirty-Second (32" Annual General Meeting ('AGM') of CSL Finance

Limited will be held on Saturday, September 21, 2024 at 12.30 pm (IST) through VC/OAVM to transact the business set out in the Notice of AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ("the Act"), and Securities and Exchange Board o India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020 Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021, Circular No. 03/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA") Circulars" and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HODDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 13,2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5. 2023 and September 25 2023 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars').

In compliance with the above circulars, the Company will be sending the electronic copies of the Notice of 32rd AGM along with integrated Annual Report for FY 2023-2024 to those members whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agen ('Registrar')/ Depository Participants ('DPs'). The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide above-mentioned MCA Circular and SEBI Circular However, the physical copies of the Notice of the 32nd AGM along with the Integrated Annua Report for the FY 2023-24 shall be sent those Members who request the same a nvestor@csifinance.in, the same will available on the company's website at www.csifinance.in website of Stock Exchanges i.e., BSE Limited ('BSE'), National Stock Exchange ('NSE') a www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively as well as on the website of Nationa urities Depository Limited ('NSDL') https://www.evoting.nsdl.com.

Detailed process and the manner for attending the AGM and casting vote through remote-e voting and e-voting at the AGM for members who are holding the shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company is being provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of

Quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Company has fixed Saturday, 14th September 2024 as the 'Record Date' for determining entitlement of members for the final dividend for FY 2023-24, if approved at the AGM.

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository, Notice or AGM along with Integrated Annual Report for FY 2023-24 and login details for e voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email address with Company/RTA/DP/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining notice, Annual Report for FY 2023-24 and login details for e voting.

Members who have not registered their Email IDs and/or not updated their complete bank details viz. core banking A/c No., and type, MICR Code and IFSC Code may refer the below manner for egistering their Email IDs and Bank account.

Physical Send a request to RTA of the Company i.e., MAS Service Limited at T-34, 2rd Floor Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi - 110020 in duly filled Form No. ISR-1, which can be downloaded from the website of the Company at www.cslfinance.in under nvestor Relation tab as well as RTA's website i.e., www.masserv.com under download tab. You can also send the Form ISR-1 with digital signature to RTA's mail in investor@masserv.com under copy marked to company at investor@cslfinance.in

Demat Please contact your DP and register your email address and bank account details as per the process advised by DP.

PLEASE NOTE THAT AS PER SEBI CIRCULAR DATED 03/11/2021 AND DATED 16/03/2023. ALL DIVIDEND WILL BE PAID ONLY IN ELECTRONIC MODE. IF YOU HAVE NOT UPDATED YOUR BANK DETAIL PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 13/09/2024. IF YOU ARE HOLDING SHARES IN PHYSICAL MODE PLEASE SEND RTA. IF YOU ARE HOLDING SHARES IN DEMAT MODE PLEASE UPDATE YOUR BANK DETAIL WITH YOUR DP.

By order of the Board of Directors of **CSL Finance Limited**

Date: 09.08.2024 Preeti Gupta (Company Secretary & Compliance Officer) Place: Noida



STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2024

760.57

114.61

73.98

74.35

16.52

1.49

1.49

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange Under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the stock Exchange website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the

Registered Office: 90/C,90/D, Phase 1 I.D.A, Jeedimetla, Hyderabad, Telangana, India, 500055. CIN: U74210TG1983PLC004132

YEAR ENDED

31-Mar-2024

3727.64

807.86

585.80

583.26

118.23

11.20

STANDALONE

QUARTER ENDED

30-Jun-2024 31-Mar-2024 30-Jun-2023

955.66

226.27

149.29

147.25

118.23

2.85

2.85

990.21

243.66

171.30

172.47

118.23

2.90

2.90



Celebrating Six Decades

Engineering Excellence

Spearheading India's Energy Infrastructure for the last 60 years.











EXTRACT OF THE UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2024

(₹ in Lakhs

SI.	STANDALONE		DALONE		CONSOLIDATED				
No.	Doubleulove	Portionary QUARTER ENDED Y		YEAR ENDED	(UARTER ENDE)	YEAR ENDED	
	Particulars 3		31-Mar-24	30-Jun-23	31-Mar-24	30-Jun-24	31-Mar-24	30-Jun-23	31-Mar-24
		(Unaudited)	(Audited) Refer Note No.4	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited) Refer Note No.4	(Unaudited)	(Aaudited)
1	Revenue from operations	61,062.37	79,027.45	80,834.15	323,216.50	62,382.78	80,513.82	81,827.26	328,085.85
2	Other Income	3,769.60	5,612.06	9,261.69	22,459.96	3,886.71	5,114.10	9,372.18	21,916.45
3	Total income	64,831.97	84,639.51	90,095.84	345,676.46	66,269.49	85,627.92	91,199.44	350,002.30
4	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7,364.01	11,644.29	15,259.16	47,040.72	7,926.20	11,707.06	15,604.74	47,818.35
5	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7,364.01	11,644.29	15,259.16	47,040.72	7,926.20	11,707.06	15,604.74	47,818.35
6	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,477.85	9,093.86	11,362.39	35,699.06	5,894.25	8,960.80	11,638.04	36,016.13
7	Share of Profit/(Loss) in Joint Venture Entities/ Associates	-	-	-	-	3,265.46	2,591.68	2,254.47	8,509.65
8	Profit for the period	5,477.85	9,093.86	11,362.39	35,699.06	9,159.71	11,552.48	13,892.51	44,525.78
9	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	5,136.77	12,247.13	10,893.84	37,423.11	8,815.09	14,692.40	13,425.39	46,240.76
10	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 5/-)	28,102.13	28,102.13	28,102.13	28,102.13	28,102.13	28,102.13	28,102.13	28,102.13
11	Other Equity				203,025.76				197,429.25
12	Earning Per Share (EPS) (₹ per share of ₹ 5/- each)								
	i) Basic & diluted EPS before Extraordinary items in ₹	0.97	1.62	2.02	6.35	1.63	2.05	2.47	7.92
	ii) Basic & diluted EPS after Extraordinary items in ₹	0.97	1.62	2.02	6.35	1.63	2.05	2.47	7.92
NOTE	The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock								

- 1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 9th August, 2024.
- 2) These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter
- 3) The Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the above financial results for the quarter ended 30th June, 2024.
- 4) The figures of quarter ended 31st March, 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year ended 31st March, 2024 and the year to date figures upto the third guarter of the financial year 2023-24.
- Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Stock Exchange Websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the Company Website: www.engineersindia.com.

Place: New Delhi Dated: 09 Aug, 2024

By Order of the Board For Engineers India Limited

(Sanjay Jindal)

Director (Finance) & Whole-time Director DIN: 09223617





Follow us:

हस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Punjab & Sind Bank

343, बजरिया, रेलवे रोड, गाजियाबाद, उ.प्र., ईमेलः g0191@psb.co.in

कब्जा नोटिस [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के तहत्]

अधोहस्ताक्षरी ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 343, बजरिया, रेलवे रोड, गाजियाबाद च.प्र. के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का नं. 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदर शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना दिनांकित 05.06.2024 जारी की थी जिसमें कर्जदार श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम दत्त शर्मा से नोटिस में उल्लिखित राशि दिनांक 30.05.2024 (एनपीए की तारीख) को रु. 11,92,811.04 (रुपये ग्यारह लाख बानवे हजार आठ **सौ ग्यारह और चार पैसा मात्र)** को दिनांक 01.06.2024 से प्रभावी आगे की ब्याज और प्रासांगिक प्रभारों सहित उक्त नीटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदार द्वारा राशि का भगतान न कर पाने पर कर्जदार / जमानती तथा सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम ह के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का **6 अगस्त, 2024** को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानती तथा सर्व साधारण को संपत्ति से कोई लेन-देन करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के लिए कोई भी लेन-देन दिनांव रु. 11,92,811.04 (रुपये ग्यारह लाख बानवे हजार आठ सौ ग्यारह और चार पैसा मात्र) और दिनांक 01.06.2024 से प्रभावी आगे की ब्याज और प्रासांगिक प्रभारों के लिए पंजाब एण सिंध बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धार 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नंबर यूजी-4, अपर ग्राउंड फ्लोर, बैक साइड (छत अधिकार रहित) माप 40 वर्ग मीटर, प्लॉट नं. डी–411, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, लोनी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

संपत्ति की सीमाएँ उत्तरः रोड 12 मीटर चौडा पूर्वः प्लॉट नंबर डी–410

दक्षिणः प्लॉट नंबर डी-344 और 345 पश्चिमः प्लॉट नंबर डी-412

दिनांक: 06.08.2024, स्थान: गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश प्राधिकत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक

AXIS BANK खुदरा सम्पत्ति केंद्र: एक्सिस बैंक लि., गीगाप्लेक्स, एनपीसी-1, तीसरी मंजिल एमआईडीसी, एयरोली नेलेज पार्क मुगलसन रोड एयरोली नवी मुंबई-400708. और एक पताः एक्सिस बैंक लि., एक्सिस हाउस, टावर टी-2, दूसरी मंजिल, I-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेस, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301, कॉरपोरेट कार्यालय: 'एक्सिस हाउस' ब्लॉक-की क्रॉफोर उनके रिकार ्**कॉरपोरेट कार्यालयः** 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक-बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउंड, पोंडूरंग बुधक , मुम्बई-400025, **पंजीकृत कार्यालयः** 'त्रिसूल', तीसरी मंजिल, समरथेश्वर मंदिर के सामने

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन कब्जा सूचना ्कि, एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण, वित्तीय संपत्तियों वे नर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पति है। उन्हों साथ पति होरा 13(12) के अंतर्गत प्रदर्श शक्तियों के प्रयोग के तहत मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें नीधे उल्लेखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरचीदाताओं को कथित सूचना के प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चूकता करने को कहा गया था। कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदात द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में असफल होने के कारण एतदृद्वारा कर्जदार्श/सह-कर्जदार्श/मारंटीदाताओं/गिरंथीदाताअ एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की घारा 13(4) के साथ पठित कथित नियमों के निय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे उल्लेखित तारीख को निम्नलिखित ० क्ष अंतरात अपदा राण्या क अन्या । क त्रस्त अवावरावारा क्षारा यहां ना गांव उत्सावता ताराच का गंग्नालाचर सम्मिरियों पर कब्जा कर लिया गया है। विशेष क्स कर्जवारों/सह-कर्जवारों/मार्टिवीटिताकां/गिरियोदाकां त्राया आ तौर पर जनसाधारण को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सीदा न करें तथा इस संपत्ति o संबंध अगर कोई भी सौदा किया जाता है तो वह एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रत्याभृत सम्पत्तियं के राज्य कार केंद्र मारा क्या आता है। को मुक्त कराने के लिए समय की उपलब्धता के संबंध में अधिनयम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की
1. श्री निरंजन कुमार पिता श्री दुनी चंद निवासी - सी-41,	ईरोस गार्डन कॉलोनी, सूरज	तारीखः
पहली मंजिल, एफ/साइड, विश्वकर्मा कॉलोनी, नई दिल्ली-	कुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	12-सितम्बर-
110044। और एक पताः श्री निरंजन कुमार ग्राम-मोहन,	में ब्लॉक-III के प्लॉट नं. 83	2023
डाकघर महाराज, तहसील-बरसर मोहन, हमीरपुर, हिमाचल	पर निर्मित विला पहली मंजिल	
प्रदेश-176049। और एक पता:- श्री निरंजन कुमार सम्पत्ति	पर रिहायसी सम्पत्ति/आवासिक	कब्जा की तारीखः
सं. 83, स्पेस-1, पहली मंजिल, ब्लॉक-III, ईरोस गार्डन	इकाई स्पेस सं. 1, सुपर एरिया	06 अगस्त-2024
कॉलोनी, सुरज कुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा-121001	1408 वर्ग फीट (130.81 वर्ग	
और एक पताः श्री निरंजन कुमार मैसर्स	मीटर) साथ में ग्राम लक्कडपुर,	
दि सी फरेर आवास -26 कालीकट रोड, बल्लार्ड एस्टेट फोर्ड	जिला फरीदाबाद, हरियाणा के	
मुंबई, महाराष्ट्र-400001	राजस्व परिसम्पदा में स्थित	मांग सूचना की
2. श्रीमती दीपिका देवी पति श्री निरंजन कुमार आवास	177.26 वर्ग मीटर (212 वर्ग	रकम (रु.):
सी-41, पहली मंजिल, एफ/साइड, विश्वकर्मा कॉलोनी,	यार्ड) परिमाप के प्लॉट में भूमि	₹, 86,57,644/-
नई दिल्ली-110044। और एक पता:- श्रीमती दीपिका देवी	का अविभाज्य तथा अविभाजित	(रुपये छियासी
पति श्री निरंजन कुमार निवासी-टी-82 शुकरा बाजार उत्तम	यथानुपात हिस्सा। चुंकि कथित	लाख सनतावन
नगर, डी के मोहन गार्डन, एसओ वेस्ट दिल्ली 110059	प्लॉट की चौहद्दी निम्नानुसार	हजार छह सौ
भारत और एक पता-श्रीमती दीपिका देवी निवासी-ग्राम-	है:- उत्तर-पूर्व में: प्लॉट नं. 83/	चौवालीस मात्र)
मोहन, डाकघर महाराज, तहसील-बरसर मोहन, हमीरपुर,	III. दक्षिण-पूर्व में: 45 फीट	
हिमाचल प्रदेश-176049। और एक पता-श्रीमती दीपिका देवी	चौड़ी सड़क, उत्तर-पश्चिम में:	
सम्पत्ति सं. 83, स्पेस-1, पहली मंजिल, ब्लॉक-III, ईरोस	प्लॉट नं. 69/III, दक्षिण-पश्चिम	
गार्डन कॉलोनी, सूरज कुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा-121001.	में: प्लॉट नं. 84/III.	
ऊपर उल्लेखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदात		रने के लिए 30 दिन

की सूचना दी जाती है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अधीन प्रावधानों के अनुसा वना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर गिरवी पर रखी गई सम्पत्तियों की बिक्री कर दी र अधिकृत अधिकारी, एक्सिस वैंक लि दिनांकः 10-अगस्त-2024, स्थानः नोएडा

आईटीएल फिनलीज एंड सिक्यूरिटीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय बै–०८, जीडी–आईटीएल टॉकर, नेताजी सुनाव प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

फोन नं: 011-41572981, CIN: L65910DL1991PLC045090, ई—मेलः csitlfinlease@gmail.com, वेबसाइटः www.itlfinlease.in

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए बिन एकच विनीय प्रतिपामों का मार्थ

	अलखापराक्षत एकल वित्ताय पारणामा का सार							
큙.	विवरण	तिमाही	समाप्त	वर्ष र	समाप्त			
सं.		30.06.2024 अलेखापरीबित	31.03.2024 लेखापरीवित	31.03.2024 लेखापरीवित	31.03.2023 लेखापश्रीक्रीत			
1	प्रचालनों से कुल आय	11.27	54.68	102.79	145.28			
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पूर्व)	(9.89)	25.51	(4.89)	14.83			
	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(9.89)	71.56	41.16	14.83			
	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)		57.65	26.07	12.47			
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल]	(9.90)	57.64	26.06	10.27			
6	इक्विटी शेयर पूंजी	473.53	473.53	473.53	480.81			
	आरक्षित निधि (पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाय अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	-	-	476.61	443.27			
8	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10 /— प्रत्येक) (चालू प्रचालनों के लिए)							
	(1) बेसिक	(0.21)	1.22	0.55	0.26			
	(2) डायल्यूटेड	(0.21)	1.22	0.55	0.26			
ने	नोट:							

ऊपर सेबी (सूचीबृद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 व तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in

और कंपनी की वेबसाइट www.itlfinlease.com पर उपलब्ध है। 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 9 अगस्त, 2024 को आयोजित

उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

आईटीएल फिनलीज एंड सिक्यूरिटीज लिमिटेड के लिए

दिनांकः 09.08.2024

स्थान : नई दिल्ली

बी. एल. गुप्त डीआईएनः 00143031

जेम्स वारेन टी लिमिटेड

CIN: L15491AS2009PLC009354 जीकृत कार्यातयः बोरदोलोई नगर, बाई लेन-6, सेक्टर-2, तिनस्किया, असम-786125, **टेली**: 0374-2330020 **रारपोरंट कार्यातयः**12, प्रीटोरिया स्ट्रीट, कोलकाता-700071, **टेली**: 033-4034 1000, **टेली फेक्स**: 033-4034 1015 ईमेलः sec@jwtl.in, वेबसाइटः www.jameswarrentea.com

इसलः Sec(@)wti.ii.n. तबसाइटः www.jameswarrentea.com

पार्वजनिक सूचना
तद्वारा शुक्ना दी जाती है कि मारतीय प्रतिनृति एवं विनिमय बोर्ड (इसियटी शेयरों के असूवीयन) विनिममन, 2021 के विनिमम 5, 6 तथा
तद्वारा शुक्ना दी जाती है कि मारतीय प्रतिनृति एवं विनिमय बोर्ड (इसियटी शेयरों के असूवीयन) विनिममन, 2021 के विनिमम 5, 6 तथा
तया त्या प्रायाना ("असूबीयन विनिक्ता") के अनुसार जेनस जारेन दी लिगिरेड ("कंपनी") गेरताक मंडल द्वारा 8 अनुसार (2024 को
वाधिका अपनी वंदन में किए पार्वणनान के अनुसार रिकेण कलकारा नदित एकसमंत्र हिनिट ("स्रिक्ता") को प्रतिक्र का निवस्त करने कि माना को मिर्डिड असूबीयन करने कि माना की प्रतिक्र करने कि माना की मान्द्र कि इसिटटी शेयरों को सिर्फ तीएसई से असूबीयन करने की माना की मार्ड है।
सूचीयन की आवश्यकता एवं उत्तरेश्वर को स्वीक्त कि स्ति असूबीयन कियन की अनुसार कोनों की प्रतिक्रित की स्ति है सिर्फ के अनुसार कोनों की प्रतिक्रित की स्ति है सिर्फ के अनुसार कोनों की प्रतिक्रित की स्ति है सिर्फ के अनुसार कोनों की प्रतिक्रित के स्ति सिर्फ कियरों शेयरे राष्ट्र व्याप्ति के कियरों शेयरे राष्ट्र विभिन्न के असूबीयन कियरों की सुक्ति हिम्म के सिर्फ के स्त्र में से सीरवर्ष पर कंपनी के विद्यारी वेयरों की कोई ट्रिडिंग मही हुई है तथा सहीरिय रीच स्वाप्त के स्त्र सिर्फ के सिर्फ के सिर्फ सिर्फ के सिर्फ के स्त्र से से सीरवर्क के मिरल के लाग सिर्फ सिर्फ के सिर्फ के सिर्फ के सिर्फ से से सीरवर्क से सीरवर्क से से सीरवर्क से सीरवर्क से सिर्फ से सिर्फ से सीरवर्क से सीरवर्क सिर्फ से सिर्फ से सीरवर्क सिर्फ से सीरवर्क सिर्फ सारवर्क से सीरवर्क से सीरवर्क सिर्फ से सीरवर्क सिर्फ से सीरवर्क सीरवर्क से सीरवर्क सीरवि

हस्ता/-आयुषी मुंघरा कंपनी संघिव । सं.: एसीएस

पीटेंट ऑटोमोबाइल्स कं. लि

शुद्धिपत्र देनांक 10.08.2024 को आयोजित होने वार बोर्ड की बैठक बुलाए जाने के संबंध में दिनांव 01.08.2024 को प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में शुद्धिपत्र , एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अपरिहा . गरणवश कथित बैठक स्थगित कर दी गई है बोर्ड की बैठक अब दिनांक 14.08.2024 क

कृते **कम्पीटेंट ऑटोमोबाइल्स कं. लि** हस्ता/ ष्थान : नई दिल्ली रवि अरोड नांक : 09.08.2024 कंपनी सचिव

आयोजित होगी।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड FINSERV

कॉपीरेट कार्यालय : सेरेड्रम आईटी पार्क, बीट बिल्डिंग, डवीं तल, कल्वाणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411014, शाखा कार्वालय : बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, चेटीड अम्या, नंबर 37, नेल्सन मनिकम रोड, चेन्हर्-600029 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

मैस**सं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा उन कर्वदार(रीं)/सह-कर्जदार(रीं) को निम्नलिखित सूचना देता है जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उन्हें सम्पत्ति के विरुद्ध गृह ऋण(णॉ)/ऋण(णी) के लिए ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित मुलघन के पुनर्भुनतान में अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं और परिणामस्वरूप उनके ऋण निम्नलिखित तिथियों को गैर-निष्पादन आस्तियों में परिवर्तित हो गये हैं। तदनुसार, विचीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 एवं उसके नियमों के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पते पर उन्हें सुचनाएँ जारी गयी थीं, किन्तु उसे अनसल्डी,अनडिलीवर्ड वापस कर दिया गया अतः कर्जदार(रों)सह-कर्जदार(रों) को एतद्वारा इस प्रकाशन सूचना के माध्यम से समय-समय पर उनके द्वारा ग्रहण की गयी ऋण सुविधाओं के तहत अपनी बकाया राशियाँ अदा करने के लिए अवगत/सृचित किया जाता है।

ऋण खाता सं./ कर्जंदार(रों)/सह-कर्जंदार् रें)/ जमानती(वों) के नाम तथा पता	प्रतिभूत/वंधक अचल आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली सम्पत्ति का पता	मांग सूचना की तिथि एवं राशि
शाखाः चेन्नई लैन नंबर H403HLP0330724	अग्रलिखित गैर-कृषि संपत्ति का समस्त भागः फ्लैट नंबर सी/03 पहली मॉजिल क्षेत्रफल 88 वर्ग गज है, यानी 73.57 वर्ग मीटर, बोपल सहवास कंपनी ऑप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड	
ा. ज्ञानेश्वर सुधार (कर्जदार) प्रकार नंतर जी। प्रवॉट नंबर ६०० करी स्टीट प्रांजनकम रोड जेल्हें	के मुद्रिका अपर्टिमेंट, भव्य पार्क ब्लॉक नंबर 311 (पुराना सर्वे नंबर 245/1, 245/2) बोपल अहमदाबाद गुजरात-380058 में स्थित, सीमाएं : पूर्व-खुला आकाश उत्तर-खुली जगह,	(रुपये बीस लाख चौरासी
एमआईजी टी.एन.एच.एम सितलापक्कम कांचीपुरम कॉलोनी, चेन्नई- 600126.	पश्चिम-फ्लैट नंबर उ दक्षिण-फ्रेंसेज और लिफ्ट की जगह	हबार सात सा छिहत्तर मात्र)
 कुसुम एस (सह-कर्जदार) मारोधी सेतिया में मोधल्ला वार्ड नंबर 30 बीकानेर राजस्थान, वार्ड नंबर 30 बीकानेर-334001 		

सचना की वैकल्पिक सर्विस के लिए कदम उदाये जा रहे हैं। उपर्यक्त कर्जदारों तथा/अथवा सहकर्जदारों, जमानतियों को इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज . बोहत बकाया धुगतान करने का परामर्ज दिया जाता है जिसमें असफेल रहने पर (बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह रहित) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमांग की धारा 13(4) तथा प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत प्रतिभृत आस्तियों/वंधक सम्पत्ति का कब्बा करने के लिए भावी कदम उठारे वायेंगे। उपर्युक्त नामधारी पक्षकारों को उपर्युक्त सम्पत्तियों में तृतीय पक्ष का हित हस्तान्तिरत न करने, सुनित न करने का परामर्श दिया जाता है, जिस पर बजाज हाडसिंग फाइनेंस लिमिटेड

माननीय ऋण वसूली अधिकरण

..प्रतिवार्व

CSL Finance

Limited (

लखनऊ के समक्ष 600/1, विश्वविद्यालय मार्ग, निकट हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ-226007

ओए नं. 320 ऑफ 2024

(क्षेत्राधिकारिता का क्षेत्र : उत्तर प्रदेश का भाग) [ऋण वसुली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1983 के नियम 12 एवं नियम 13 के साथ पठित बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को देय-मुग्तेय ऋण वसूली अधिनियम 1993 की बारा 19(3) के अंतर्गत प्रतिवादियों को न्यायालयी-सूचनायें (समन्स)|

विरुद्ध एन के चेन्स प्राइवेट लिमिटेड

रिक्सिस बैंक लिमिटेड

मैसर्स एन के चेन्स प्राइवेट लिमिटेड पता : बी-122 ततीय एवं चतर्थ तल. सेक्टर 02 नोएडा. गौतम बद्ध नगर. उत्तर प्रदेश - 201301

ईमेल : account@nkchains.com, दूरमाष : 9412200642 श्री अमित गुप्ता, निदेशक पुत्र श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता पता : 24/4 मानसरोवर कॉलोनी, मेरठ नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, दूरमाष : 9412200642

जपरोक्त जिल्लाखन आवेदन में आप से अपेका है कि आप न्यायालयी—सचनाओं (समस्य) के प्रकारन परांत, व्यक्तिगत रूप में अथवा अपने विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता या इस अधिकरण में कार्यरत् विधिव अधिवक्ता के माध्यम से, प्रलेखों तथा शपथपत्रों (यदि कोई हो) के साथ दो सेटों में पेपर बुक प्रारूप में, प्रत्युत्त प्रस्तुत करें और उसकी एक प्रति आवेदक अध्या उसके विधिक परामर्षक / विधिवत प्राचिकृत अमिकती कं प्रेषित करने के उपरान्त, इस अधिकरण में प्रस्तुत करें तथा तत्यच्यात् दिनांक 20-08-2024 **को प्रातः 10.30 बजे** अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ऐसा करने में विफल होने पर आवेदन की सुनवाई कर दी जायेगी तथा भापकी अनुपस्थिति में उस पर निर्णय सुना दिया जायेगा।

ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

CSL Finance Limited

CIN: L74899DL1992PLC051462 Regd. Office: 410-412,18/12, 4th Floor, W.E.A.

Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi -110005 Tel: 0120-4290650, Email: investor@cslfinance.in, Website: www.cslfinance.in

Notice is hereby given that the Thirty- Second (32") Annual General Meeting ('AGM') of CSL Finance Limited will be held on Saturday, September 21, 2024 at 12.30 pm (IST) through VC/OAVM to transact the business set out in the Notice of AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ('the Act'), and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and Ministry of Corporate Affairs (NCA) vide its General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021, Circular No. 20/2021 dated December 28, 2021, Circular No. 20/2021 date No. 03/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA") Circulars" and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HODDHS/P/CIR/2022/063 dated May 13,2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and September 25, 2023 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'),

In compliance with the above circulars, the Company will be sending the electronic copies of the Notice of 32" AGM along with integrated Annual Report for FY 2023-2024 to those members whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent ("Registrar")/ Depository Participants ("DPs"). The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide above-mentioned MCA Circular and SEBI Circular. However, the physical copies of the Notice of the 32^{m} AGM along with the Integrated Annual Report for the FY 2023-24 shall be sent those Members who request the same at investor@cslfinance.in, the same will available on the company's website at www.cslfinance.in vebsite of Stock Exchanges i.e., BSE Limited ('BSE'), National Stock Exchange ('NSE') a www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively as well as on the website of Nationa Securities Depository Limited ('NSDL') https://www.evoting.nsdl.com.

Detailed process and the manner for attending the AGM and casting vote through remotevoting and e-voting at the AGM for members who are holding the shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company is being provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company has fixed Saturday, 14° September 2024 as the 'Record Date' for determining entitlement of members for the final dividend for FY 2023-24, if approved at the AGM.

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository, Notice of AGM along with Integrated Annual Report for FY 2023-24 and login details for evoting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email address with Company/RTA/DP/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining notice, Annual Report for FY 2023-24 and login details for evoting.

Members who have not registered their Email IDs and/or not updated their complete bank details registering their Email IDs and Bank account.

Physical | Send a request to RTA of the Company i.e., MAS Service Limited at T-34, 2nd Floor Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi - 110020 in duly filled Form No. ISR-1, which can be downloaded from the website of the Company at www.cslfinance.in unde Investor Relation tab as well as RTA's website i.e., www.masserv.com under downloa tab. You can also send the Form ISR-1 with digital signature to RTA's mail in investor@masserv.com under copy marked to company at investor@cslfinance.in

Please contact your DP and register your email address and bank account details as Holding per the process advised by DP.

PLEASE NOTE THAT AS PER SEBI CIRCULAR DATED 03/11/2021 AND DATED 16/03/2023. ALL DIVIDEND WILL BE PAID ONLY IN ELECTRONIC MODE. IF YOU HAVE NOT UPDATED YOUR BANK DETAIL PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 13/09/2024. IF YOU ARE HOLDING SHARES IN PHYSICAL MODE PLEASE SEND YOUR BANK DETAIL BY FILLING ISR-1 WITH ORIGINAL CANCELLED CHEQUE TO RTA. IF YOU ARE HOLDING SHARES IN DEMAT MODE PLEASE UPDATE YOUR

CSL Finance Limited

Date: 09.08.2024 Preeti Gupta (Company Secretary & Compliance Officer) Place: Noida

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः ३२-बी, सेक्टर-६२, नोएडा-२०१३०७

गिरवी रखे गए सोने के आभूषण/गहने/सिक्के की सार्वजनिक नीलामी हेतु सूचना

रतद्दवारा निम्नलिखित स्वर्ण ऋण उधारकर्ताओं, उनके कानूनी वारिसों, स्वर्ण आभूषणों 🖊 गहने 🖊 सिक्कों के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों और आम जनता के ध्यान में लाया जाता है कि बैंक द्वारा बार—बार अनुस्मारक 🖊 नोटिंस के बावजूद, निम्नलिखित उधारकर्ता बैंक को अपना बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं ।

स्थान : बीकानेर हिथि : 10 अगस्त, 2024

एतद्वारा यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि यदि वे अपने संबंधित स्वर्ण ऋण खातों (अद्यतन ब्याज और सभी लागत शुल्क / व्यय सहित) में अपनी सभी बकाया राशि **दिनांक 26.08.2024 तक** जमा करने में विफल रहते हैं, तो **दिनांक 27.08.2024 को सुबह 11.00 बजे** उनके गिरवी रखे हुए सोने के आभूषण / गहने / सिक्के सार्वजनिक नीलामी के लिए शाखा परिसर में रखे जाएंगे। इसके लिए, संबंधित उधारकर्ताओं को हुई किसी मी असुविधा या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में किसी भी उधारकर्ता के किसी भी आरोप या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को 500 / — (पांच सौ रुपये मात्र) शाखा प्रबंधक के पास निर्धारित समय / तिथि से पहले बयाना राशि के रूप में जमा करना वाहिए। अंतिम बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 48 घंटे के भीतर पूरी राशि बैंक में जमा करने में सक्षम होना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर बैंक में जमा उनकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। बैंक बिना कोई कारण बताए नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि इस प्रकार निकाली गई बोली का मूल्य कम या अपर्याप्त पाया जाता है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो बैंक उपरोक्त निर्धारित नीलामी की तिथि, समय या स्थान को बदलने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार सरक्षित रखता है।

	खाता संख्या	नाम	पता	योने का सकत	नीलामी का स्थल/
क्र. सं.	GIGH 41641	1111	901		शाखा का नाम
1	684777610000355	शोमित कुमार गौतम पुत्र राम कुमार	ग्राम–भावरखेड़ा, पोस्ट–जिगनिया, शाहजहाँपुर यूपी–242042	94,040	बैंक ऑफ इंडिया बीसलपुर शाखा
2	684777610000318	सूरज पाल पुत्र नन्हे लाल	ग्राम—कासिमपुर, पोस्ट—अमरा करोड़ तहसील—बीसलपुर, जिला—पीलीभीत यूपी—262201	139.160	बैंक ऑफ इंडिया बीसलपुर शाखा
3	784177610000348	आसमा पत्नी मोहम्मद आरिफ	2/7 चांदपुर, बिचपुरी, दोहरा रोड, जिला–बरेली यूपी–243001	36,080	बैंक ऑफ इंडिया नई बरेली शाखा
4	692077610000208	अशरफ अली पुत्र असगर अली	ग्राम व पोररट—नागलिया अकील, रामपुर यूपी—244927	30,444	बैंक ऑफ इंडिया रामपुर शाखा
5	714625210000059	पप्पू पुत्र कृष्णा कुमार	67/68, 3 चिरोड़ी रोड, पूर्वी आदेश नगर, लोनी देहात, गाजियाबाद यूपी—201102	44,430	बैंक ऑफ इंडिया साहिबाबाद शाखा
6	710873710000096	प्रदीप खन्ना पुत्र पंकज खन्ना	प्लॉट नंबर—36, भ्जूतल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन—1, साहिबाबाद, गाजियाबाद यूपी—201010	63,850	बैंक ऑफ इंडिया वसुंधरा शाखा
7	712525110000051	मैसर्स एयरकॉन गैलरी (प्रोप– काजल गर्ग)	बिल्डिंग नंबर—31 और 32, दुकान नंबर—2, न्यू आर्य नगर, गाजियाबाद यूपी—201005	79,650	बैंक ऑफ इंडिया वजीराबाद रोड शाखा
8	712573010000006	सारूख खान पुत्र तोहिद	बी—64, गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद यूपी—201005	17,940	बैंक ऑफ इंडिया वजीराबाद रोड शाखा
9	712573710000015	सारुख खान पुत्र तोहिद	बी—64, गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद यूपी—201005	30,360	बैंक ऑफ इंडिया वजीराबाद रोड शाखा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

शाखा / ऋणकर्ता /

क्षेत्रीय कार्यालयः 31, जेल चुंगी मेरठ शहर, फोन नं0 0121-433102 कब्जा सूचना

मांग नोटिस बकागा धानगणि

परिशष्ट−।∨ नियम–8(1) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत नर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तिय

का प्रयोग करते हुए **सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया** ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर/बंधककर्ता को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/बंधककर्ता द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी /ऋणियों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 व उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा उनके खाते के सामने दी गई तारीख पर ले लिया है। ऋणी/ऋणियों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप ते चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति के सम्बंध में किसी प्रकार का लेन-देन सेन्द्र**ल बैंक ऑफ इंडिया, सम्बन्धित शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित व्याज हे चार्ज के पूर्ण मुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्य समय के संदर्भ में अधिनयम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता

बंधक जबी गरी समान्ति का विकास

ľ	सं0	गारन्टर के नाम	बंधक रखा गया सम्पात्त का विवरण	की दिनांक	बकाया धनराश
		शाखाः हापुरः ऋणीः 1. श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री सुन्दर पाल सिंह। 2. श्री नीरज कुमार पुत्र श्री सुन्दर पाल सिंह, सभी निवासी 1488 के, लज्जापुरी, हापुड़ (उ.प्र.)।	बंधक आवासीय मकान प्लॉट नं. 21 पर निर्मित, क्षेत्रफल 85.49 वर्गमीटर अर्थात् 102.22 वर्गगज, खसरा नं. 225, पुराना म्यूनिसिपल नं. 538 एवं नया म्यूनिसिपल नं. 1555-1, स्थित मौहल्ला लज्जापुरी, गली नं. 11 ए, म्यूनिसिपल समिति के अन्दर, हापुड़ सम्पत्ति स्वामी श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री सुन्दर पाल सिंह, रिजस्ट्रई विक्रय विलेख नं. 1053, दिनांक 10.02.2015, सब रिजस्ट्रार -1 हापुड़ पर पंजीकृत है। सीमाएँ निम्न प्रकार है- उत्तर- बिजेन्दर सिंह का मकान - प्लॉट नं. 20, दक्षिण- अमर सिंह का मकान, पूर्व- परवीन का मकान - प्लॉट नं. 6, पश्चिम- रास्ता।	19.01.2023 कब्जे (पजेशन) की तिथि 06.08.2024	२० 5,56,971.00 दिनांक 19.01.2023 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चें - रिकवरी
		ताखाः हापुर ऋणीः 1. श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री शोभा राम, 2. श्री सुमित कुमार सागर पुत्र श्री शोभा राम, दोनो निवासीः मकान नं0 358, गली नं0 7ए, लञ्जापरी, हापुड़- 245101	बंधक आवासीय मकान म्यूनिसिपल नं. 358 प्लॉट नं. 4 पर निर्मित, क्षेत्रफल माप 93.68 वर्गमीटर, मिनजुमला खसरा नं. 231, स्थित मीहल्ला लज्जापुरी, गली नं. 7 ए, राजस्व ग्राम चमरी, जिला हापुड़ सम्पत्ति स्वामी श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री शोभा राम, सीमाएँ निम्न प्रकार है- उत्तर- प्लॉट नं. 5- विजय सिंह का मकान, दक्षिण- प्लॉट नं. 3 - बोधराज का मकान, पूर्व- अन्य का मकान, पश्चिम- 12 फीट चौड़ा रास्ता।		
		शाखाः ग्रपुष्ठ ऋणीः 1. श्री राहुल कंसल (कानूनी उत्तराधिकारी/पुत्र स्व श्रीमती रजनी देवी)। 2. श्री आकाश कंसल (कानूनी उत्तराधिकारी/पुत्र स्व श्रीमती रजनी देवी)। 3. श्री राहुल कंसल पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार कंसल, सभी निवासी म्यूनिसिपल नं. 14-9/514/161, मीहल्ला माहेश्वरी गंज, मेन रोड, हापुड़- 245101 (उ.प्र.)।	बंधक डबल स्टोरी व्यवसायिक कम आवासीय सम्पत्ति (भूमि और भवन) म्यूयनिसिपल नं. 14-9/514/161, मौहल्ला माहेश्वरी गंज, मेन रोड हापुड़, भूमि क्षेत्रफल माप 75 वर्गगज, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार कंसल, सीमाए निम्न प्रकार है- उत्तर- सुभाष का मकान, दक्षिण- निरंजन स्वरूप का मकान, पूर्व- सुधीर का मकान, पश्चिम- रोड।	06.02.2024 कब्जे (पजेशन) की तिथि 06.08.2024	दिनांक 06.02.2024 + प्रभावी व्याज एवं
		शाखाः खुर्जा ऋणीः 1. मैसर्स बालाजी वर्तन भंडार- प्रोपराईटर श्री संजय कुमार गर्ग, पताः सुभाष रोड, बुर्ज उस्मान खान, खुर्जा, जिला- बुलन्दशहर, 2. श्री संजय कुमार गर्ग पुत्र श्री राम अवतार, पताः मकान नं. 20, बड़ी होली, खुर्जा जिला- बुलन्दशहर, गारन्दरः श्रीमती ओमर	बंधक आवासीय मकान (भूमि एवं भवन) स्थित मकान नं. 1253 मीहल्ला बुर्ज उस्मान खान, सुभाप रोड, खुर्जा, जिला- बुलन्दशहर क्षेत्रफल माप 84.00 वर्गमीटर सम्पत्ति स्वामी श्री संजय कुमार गर्ग एवं श्रीमती ओमवती देवी, सीमाएँ निम्न प्रकार है- उत्तर- त्रिवेणी देवी शर्मा का मकान, दक्षिण- अशोक कुमार शर्मा का मकान, पूर्व- गली, पश्चिम- दिनेश सिंह सोनी का मकान। ाती देवी पत्नी श्री राम अवतार, पताः मकान नं. 20, बड़ी होली, खुर्जा जिला- बुलन्दशहर।		स्त्र0 5,24,408.00 दिनांक 31.03.2024 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चें - रिकवरी
	5.	शाखाः खुर्जा ऋणीः 1. मैसर्स लक्ष्मी चिलिंग प्लान्ट और आईस फैक्ट्री प्रोपराईटर श्री भूपेन्द्र, 2. श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री पृथ्वीराज, यूनिटः खेत नं. 141 (भाग) गाटा नं. 06, ग्राम जाहिदपुर कंला, पोस्ट फिरोजपुर, तहसील खुर्जा। निवासीः मकान नं. 81, ग्राम जाहिदपुर कंला, पोस्ट पि	बंधक आवासीय भूमि स्थित खसरा नं. 141 का भाग, स्थित ग्राम जाहिवपुर कंला, तहसील खुर्जा, क्षेत्रफल 6471 वर्गमीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री सुमित सिंह, श्री प्रदीप सिंह, श्री अरविन्द्र सिंह, श्री मुपेन्द्र सिंह एवं श्री परवीन सिंह, सीमाएँ निम्न प्रकार है- उत्तर- नरेन्द्र सिंह का प्लॉट और रोड, दक्षिण- गवेन्द्र पाल सिंह का खेत, पूर्व- गजेन्द्र शर्मा आदि का मकान, सरकारी नाली बदाहू, पश्चिम- नरेन्द्र सिंह का प्लॉट और तालाव। रोजपुर, तहसील खुर्जा, गारन्टर: 1. श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज, 2. श्री सुमित चौहान पुत्र श्री परवीन सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज, 5. श्री राज सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज, 6. श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री	06.02.2024 कब्जे (पजेशन) की तिथि 06.08.2024	स्व0 1,89,73,308.00 दिनांक 15.01.2024 + प्रभावी व्याज एवं अन्य खर्चें - रिकवरी

स्थानः हापुड़

पजाब नेशनल बेक punjab national bank ..भरोसे का प्रतीक (A GOVERN ...the name you can BANK upon!

जोनल सस्त्र सेन्टर, प्रथम तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, ई-मेल:- zs8343@pnb.co.in

पृथ्वीराज, सभी निवासी ग्राम जाहिदपुर कंला, पोस्ट फिरोजपुर, खुर्जा।

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री नोटिस

प्राधिकृत अधिकारी

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपित्तियों की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना एतदृद्वारा सर्व सामान्य और विशेष कर कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किया जाता है कि संबंधित कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) से बैंक / प्रत्याभूत ऋणदाता को देय बकाया देयों की वसूली के लिए प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक / प्रभारित अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका बैंक / प्रत्यामूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सृजनात्मक / मौतिक / सांकेतिक कब्जा लिया गया है, '**'जहाँ है, जो है'', ''जो है, जैसी है'' और ''जो भी है''** आधार पर नीचे तालिका में उल्लिखित तारीख को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे तालिका में पत्याभत परिसंपत्तियों की अनसची संबंधित संपत्तियों के लिए बताए अनुसार है।

दिनांकः 09.08.2024

- 1	(19	प्रत्यानूत प	गरसपारतया का अनुस्	रूपा				
	ਗੱ ਟ	शाखा का नाम खाते का नाम	अचल बंधक संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम	(बी) बकाया राशि दिनांक को	(ए) आरक्षित मूल्य (बी) ईएमझी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई—नीलामी की तिथि/समय	प्रत्याभूत लेनदार को ज्ञात ऋणभारों	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और
	सं.	कर्जदार / जमानतियों का नाम और पता, खाता	(संपत्ति(ओं) के बंधककर्ता)	(स) कथा का ताराख सरकासा आधानयम्, 2002 का बारा 13(४) क तहत (डी) कब्जे का प्रकार (सांकेतिक/भौतिक/भृजनात्मक)	(डी) संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय		का विवरण	संपर्क नंबर
		जोनल सस्त्र दिल्ली मेसर्स मॉडर्न कंस्ट्रक्शन क. (दिल्ली), 902, आकाश दीप बिल्डिंग, 26—ए, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली—110001, 2) श्री निर्मल जैन पुत्र एमके, जैन, पताः एच.नं. 74, डिफॅस एन्कलेब, विकास मार्ग, नई दिल्ली—110092, और अन्य पताः डब्ल्यू—130, दुसरा तल, फ्लैट नं—3, बलवंत राय स्कूल के सामने, जीके—॥, ग्रेटर केलाश, साउथ दिल्ली, दिल्ली—110048, 3) श्री मनीष जैन पुत्र एमके, जैन, पताः एच.नं. 74, डिफॅस एन्कलेब, विकास मार्ग, नई दिल्ली—110092, और अन्य पताः डब्ल्यू—130, तीसरा तल, फ्लैट नं—5, बलवंत राय स्कूल के सामने, जोके—1, ग्रेटर केलाश, साउथ दिल्ली, दिल्ली—110048, श्रीर अन्य पताः डब्ल्यू—130, तीक्श तन्य पताः डब्ल्यू—130, तीसरा तल, एम—लॉक मार्केट, जीके—11, नई दिल्ली—110048, श्रीर अन्य पताः डब्ल्यू—130, दूसरा तल, एम—लॉक मार्केट, जीके—11, गई दिल्ली—110048, श्रीर अन्य पताः डब्ल्यू—130, तीसरा तल, एलेट नं—5, बलवंत राय स्कूल के सामने, जेके—11, गई दिल्ली—110048, श्रीर अन्य पताः डब्ल्यू—130, तीसरा तल, एलेट नं—5, बलवंत राय स्कूल के सामने, जोके—11, ग्रेटर केलाश, साउथ दिल्ली, दिल्ली—110048, श्रीर अन्य पताः डब्ल्यू—130, तीसरा तल, एलेट नं—5, बलवंत राय स्कूल के सामने, जीके—11, ग्रेटर केलाश, साउथ दिल्ली, दिल्ली—110048, श्रीर अन्य पताः इब्ल्यू—130, तीसरा तल, एलेट नं—5, बलवंत राय स्कूल के सामने, जीके—11, ग्रेटर केलाश, साउथ दिल्ली, दिल्ली—110048, श्रीर अन्य पताः इब्ल्यू—130, तीसरा तल, एलेट नं—5, बलवंत राय स्कूल के सामने, जीके—11, ग्रेटर केलाश, साउथ दिल्ली, दिल्ली—110048, श्रीर अन्य पताः इब्ल्यू—130, तिल्ली—110048, श्रीर अन्य पताः इब्ल्यू—130, दिल्ली—110048, श्रीर विल्ली—110048, श्रीर साउथ दिल्ली, दिल्ली—110048, श्रीर साउथ दिल्ली, दिल्ली	श्री निर्मल जैन, श्री संजीव जैन और श्री मनीष जैन के नाम में 74, डिफेंस एन्कलेव, विकास मार्ग, नई दिल्ली	(बी) रु. 39.68.51.843/- (दिनांक 03.01.2023 को) + इस पर आगे की व्याज + बैंक प्रमार + वसूली के लिए बैंक द्वारा वहन अन्य कोई प्रमार (सी) 19.05.2023 (डी) भौतिक कब्जा	(ए) र. 10.52 करोड़ (बी) र. 1.052 करोड़ (सी) र. 2.00,000 /— (डी) 29.08.2024 अप. 05:00 से अप. 06:00 तक	03.09.2024 पूर्वा. 11.00 से अप. 04.00 तक	ज्ञात न हीं	श्री पवन सिंह यादव मोबाइल नं: 8595816855
		जोनल सस्त्र दिल्ली आरना एंटरप्राईजेज प्रा. लि. 1.) मेसर्स आरना एंटरप्राईजेज प्रा. लि., 12-ई. लोअर ग्राउंड पलोर, कमला नगर, नई दिल्ली-110007, 2) श्री राज कुमार गुरता पुत्र श्री जय नारायण गुरता, ई-157, भूतल, कमला नगर, दिल्ली-110007, अन्य पताः 4/24 रूप नगर, दिल्ली-110007, अन्य पताः 4/24 रूप नगर, दिल्ली-150, अमेरी पूनम गुरता पत्नी कपिल गुरता, ई-157, ग्राउंड पलोर, कमला नगर, दिल्ली-110007 अन्य पताः 12-ई, लोअर ग्राउंड पलोर, कमला नगर, दिल्ली-110007 अन्य पताः 12-ई, लोअर ग्राउंड पलोर, कमला नगर, दिल्ली-110007 अन्य पताः 12-ई, लोअर ग्राउंड पलोर, कमला नगर, दिल्ली-110007 अन्य पताः 12-ई, लोअर ग्राउंड पलोर, कमला नगर, विल्ली-110007 अन्य पताः 12-ई, लोअर ग्राउंड पलोर, कमला नगर, दिल्ली-110007 अन्य पताः 4/24 रूप नगर, दिल्ली-110007 अन्य पताः 12-ई, लोअर ग्राउंड पलोर, कमला नगर, विल्ली-110007 अन्य पताः 4/24 रूप नगर, दिल्ली-110007	गुप्ता के नाम में संपत्ति प्रथम तल, प्लॉट नं. 12—ई, कमला नगर, दिल्ली—110007 छत	(बी) रु. 57,42,07,164,39/- (दिनांक 26.05,2014 को) + इस पर आगे की ब्याज + बैंक प्रमार + वसूली के लिए बैंक द्वारा वहन अन्य कोई प्रमार (सी) 22.08,2014	(ए) रु. 2.57 करोड़ (बी) रु. 0.26 करोड़ (सी) रु. 2,00,000 /— (बी) 28.08.2024 अप. 05:00 से अप. 06:00 तक	03.09.2024 पूर्वा. 11.00 से अप. 04.00 तक	ज्ञात नहीं	श्री पवन सिंह यादव मोबाइल नं: 8595816855

ई—नीलामी बिक्री के निबंधन व शर्ते बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्धारित निबंधन व शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के तहत होगीः (1) संपित्तियाँ "जैसी हैं, जहाँ हैं" और "जहाँ हैं, जो हैं" आधार पर बिक्री की जा रही हैं। (2) यहाँ ऊपर दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसंपित्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण ज्ञान में दिए गए हैं, किंतु इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, चूक व भूल के लिए प्राधिकृत अधिकारी जबावदेह नहीं होगा। (3) बिक्री वेबसाइट https://ebkray.in और www.pnbindia.in देखें। (5) पंजीकरण प्रभारों, स्टाम्प ङ्यूटी, करों आदि सहित सभी सांविधिक देय/अटैंडेन्ट प्रभार/अन्य देय आदि खरीदार द्वारा स्वयं वहन करने होंगे। ईन्जीलामी के तहत संपत्तियों के संबंध में किसी प्रभार, हक, ऋणभार, या सरकार या किसी अन्य को देय किसी बकाया के लिए प्राधिकृत अधिकारी या बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इच्छुक निविदाकारों से अनुरोध है कि संपत्ति पर सांविधिक

देयताओं, संपत्ति का अधिशेष, बिजली बिलों आदि सहित ऋणभारों के संबंध में अपनी खतंत्र जाँच कर संतुष्ट हो लें। सरफासी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री नोटिस

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक